



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 2007/माघ 18, 1928

No. 51]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2007/MAGHA 18, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

सं. 6/2007-सीमा शुल्क (नै. टै.)

सा.का.नि. 65(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 129क की उप-धारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड एतद्वारा उक्त अधिनियम, 1962 की धारा 129घ की उप-धारा (1) के लिए एक समिति गठित करता है जिसमें भीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित सीमा शुल्क के दो मुख्य आयुक्त होंगे जो उक्त सारणी के कॉलम (2) में तदनुरूपी प्रविष्टि में सीमा शुल्क आयुक्त (न्याय-निर्णयन) के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के लिए होंगे।

सारणी

समिति	क्षेत्राधिकार वाला क्षेत्र
(1)	(2)
(1) मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क [जिनका मुम्बई/चेन्नई/कोलकाता/दिल्ली में आयुक्त (न्याय-निर्णयन) के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण होगा]	सम्पूर्ण भारत
(2) मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (जिनका जहां का मामला हो वहां के क्षेत्र का क्षेत्राधिकार होगा)।	

[फा. सं. 390/03/2006-जे सी (आर.)]

लिमातुला यादेन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

No. 6/2007-Customs (NT)

G.S.R. 65(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1B) of Section 129A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Board hereby constitutes a Committee consisting of two Chief Commissioners of Customs mentioned in column (1) of the table below, for the areas falling within the jurisdiction of the Commissioner of Customs (Adjudication)

in the corresponding entry in column (2) of the said table, for the purpose of Sub-section (1) of Section 129D of the said Act, 1962.

TABLE

Committee	Area of Jurisdiction
(1)	(2)
(1) Chief Commissioner of Customs, [having administrative control over Commissioner (Adjudication) at Mumbai/Chennai/Kolkata/Delhi]	Whole of India
(2) Chief Commissioner of Customs, (having jurisdiction over the place where the case originated)	

[F. No. 390/03/2006-JC(R)]

LIMATULA YADEN, Dy. Secy.